

प्रेस नोट दिनांक 21.09.2021

थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा स्मैक तस्करी में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 105 ग्राम

स्मैक बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्मैक तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्र0नि0 मीरगंज के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री रीगल कुमार मय हमराह का.165 नीरज कुमार व का.2089 चमन राणा के क्षेत्र में मामूर होकर अंडरपास के नीचे मन्दिर के पास मौजूद थे तो तीन व्यक्ति अंडरपास के नीचे मौजूद अपनी मोटरसाईकिल से पैदल रेलवे लाईन पार करने की कोशिश कर रहे थे । शक होने पर तीनों व्यक्तियों की पीछा कियो तो दो व्यक्ति मौके से भाग गये एवं एक व्यक्ति बब्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान थाना मीरगंज जिला बरेली को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया । जिसकी जामा तलाशी से 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई । अभियुक्त ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि कस्वा मीरगंज में सलमान पुत्र बब्लू नि0 मो0 खानपुरा कस्वा व थाना मीरगंज जिला बरेली काफी दिनों से स्मैक के कारोबार में लिप्त है तथा 1. राशिद पुत्र असगर नि0मो0 सूफीटोला 2. लालू उर्फ रिजवान पुत्र सरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली 3. बब्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान थाना मीरगंज जिला बरेली, सलमान पुत्र बब्लू से स्मैक लेकर रामपुर बेचने जा रहे थे । इससे पहले भी ये लोग कई बार सलमान पुत्र बब्लू खाँ का माल बेच चुके है। सलमान के द्वारा दिल्ली व उत्तराखण्ड में स्मैक की तस्करी करने की बात सामने आयी है। आज भी सलमान पुत्र बब्लू खाँ से माल लेकर बेचने के लिए रामपुर जा रहे थे कि पुलिस ने मौके से बब्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान थाना मीरगंज जिला बरेली को 105 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया था तथा अभियुक्त 1. राशिद पुत्र असगर नि0मो0 सूफीटोला व 2. लालू उर्फ रिजवान पुत्र सरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली भागने में सफल रहे । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 326/21 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम 1. राशिद पुत्र असगर नि0मो0 सूफीटोला 2. लालू उर्फ रिजवान पुत्र सरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली 3. बब्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान थाना मीरगंज जिला बरेली 4. सलमान पुत्र बब्लू नि0 मो0 खानपुरा कस्वा व थाना मीरगंज जिला बरेली पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

बब्लू पुत्र शरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान थाना मीरगंज जिला बरेली ।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. राशिद पुत्र असगर नि0मो0 सूफीटोला कस्वा व थाना मीरगंज जिला बरेली ।
2. लालू उर्फ रिजवान पुत्र सरीफ अहमद निवासी मो0 अफसरयान कस्वा व थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
3. सलमान पुत्र बब्लू नि0 मो0 खानपुरा कस्वा व थाना मीरगंज जिला बरेली ।

बरामदगी का विवरण:- 105 ग्राम स्मैक बरामद (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10 लाख रूपये लगभग) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रीगल कुमार थाना मीरगंज बरेली
2. का0 165 नीरज कुमार थाना मीरगंज बरेली
3. का0 2089 चमन राणा थाना मीरगंज बरेली ।

प्रभारी निरीक्षक मीरगंज
जनपद बरेली ।